



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 107 राँची, शुक्रवार,

8 फरवरी, 2019 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

05 फरवरी, 2019

**संख्या-5/आरोप-1-19/2018-446 (HRMS)--** श्री नारायण राम, झा०प्र०से० (द्वितीय सीमित बैच, गृह जिला-गिरिडीह), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध उपायुक्त, कोडरमा के ज्ञापांक-154, दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित हैं-

**आरोप सं०-1.** डोमचाँच प्रखण्ड अन्तर्गत तेतरियाडीह पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों के चयन में अनियमितता बरती गई है।

**आरोप सं०-2.** अनियमितता के आलोक में संदिग्ध मामलों के सत्यापन कराने हेतु निर्देश के बावजूद आपके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया।

**आरोप सं०-3.** पंचायत सेवक सहदेव यादव द्वारा अनियमितता को संज्ञान में लाने पर उसका स्थानांतरण कर दिया गया।

**आरोप सं०-4.** श्री दीपक कुमार सिन्हा, कम्प्युटर ऑपरेटर को कार्य से हटाने का निर्देश देने के बावजूद उनसे कार्य कराया गया। जाँच के क्रम अनियमितता में दीपक कुमार सिन्हा की संलिप्तता पायी गयी।

**आरोप सं०-5.** तेतरियाडीह पंचायत के लाभुकों के निबंधन में पंचायत सेवक से नियमानुसार लाभुकों का निबंधन नहीं कराया गया।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1561, दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री राम द्वारा अपने पत्र, दिनांक 19 अप्रैल, 2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3884, दिनांक 04 जून, 2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2409, दिनांक 12 जून, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपने मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री राम द्वारा मृत लाभुक के बदले अन्य को आवास दे दिया गया, निबंधित लाभुक के बदले स्थायी प्रतीक्षा सूची के बाहर के व्यक्तियों को आवास दिया गया एवं जिन व्यक्तियों को पूर्व से ही पक्का मकान है, उन्हें भी आवास स्वीकृत किया गया तथा श्री राम के उक्त कृत्य से लोक राशि का दुरुपयोग एवं वास्तविक लाभुकों का हक मारा गया। साथ ही, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा श्री राम को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई।

4. श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-1052(HRMS), दिनांक 24 जुलाई, 2018 द्वारा श्री राम को निलम्बित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-1191(HRMS), दिनांक 01 अगस्त, 2018 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

5. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-229 दिनांक 06 नवम्बर, 2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं०-1, 2, 3, 4 को सही प्रतीत प्रतिवेदित किया गया तथा आरोप सं०-5 को प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

6. अतः समीक्षोपरांत, श्री नारायण राम, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा, सम्प्रति-निलम्बित को निलम्बन से मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority	Effective Date
1	2	3	4
1	NARAYAN RAM ( JHK/JAS/224 )	श्री नारायण राम, झा०प्र०से० तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा,को निलम्बन से मुक्त किया जाता है।	05/02/2019

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,  
सरकार के संयुक्त सचिव  
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972